

अक्षय की ऑनस्क्रीन पत्नी की लगजरी दुनिया

सौम्या टंडन ने हाल ही में बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन पहले ही अपनी पर्सनालिटी और लगजरी लाइफस्टाइल के चलते सुर्खियों में आ गई हैं। आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में उन्होंने अक्षय खन्ना की ऑनस्क्रीन पत्नी उल्फत का रोल निभाया, जिसमें उनकी खूबसूरती और एक्टिंग दोनों ने फैस को मंत्रमुग्ध कर दिया।



स्टाइल में सजा यह घर किसी फिल्म सेट से कम नहीं लगता। लिविंग रूम फ्रेंच फर्नीचर और खूबसूरत पेंटिंग्स से सजा है, और इसे देखकर फैस को किसी फाइव स्टार होटल का अहसास होता है। बेडरूम भी शानदार और लगजरी है, जिसमें सोफे और मुंबई के शानदार दृश्य का आनंद लिया जा सकता है।

सौम्या का किचन इतनी खूबसूरती और व्यवस्थित तरीके से सजा है कि कोई भी वहां कुकिंग करने का मन करता है। इसके अलावा उनके कपड़ों के लिए अलग रूम बनाया गया है, जो उनके क्लासी और एलिगेंट अंदाज को दर्शाता है।

फिल्म की कामयाबी के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में रहती है।

सोनी सब के शो इती सी खुशी में अभिनेत्री भूमिका गुरंग की एंटी हो रही है।

भूमिका गुरंग इस शो में सारा सेठी का किरदार निभाती नजर आयेगी। भूमिका गुरंग का किरदार



सारा एक सफल होटलियर है और साथ में मुंबई की हार्ड-सोसाइटी पर्सनेलिटी, जो अपनी तेज सोच, अलग अंदाज और बेबाक रवैये के लिए मशहूर है। स्टाइलिश, चतुर और अक्सर अप्रत्याशित, सारा का

शो 'इती सी खुशी' में शामिल हुई भूमिका गुरंग

और अन्विता को जिंदगी में सारा की वापसी तनाव और अनपेक्षित मोड़ों से भरी कहानी की शुरुआत करती है। भूमिका गुरंग ने कहा, 'सारा अब तक के मेरे निभाए किरदारों से बिल्कुल अलग है। मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है।

सलमान की फिल्म में नयनतारा की चर्चा तेज

सलमान खान की नई फिल्म का एलान होते ही इंडस्ट्री में हलचल तेज हो गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने साउथ के मशहूर डायरेक्टर वामसी और प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ हाथ मिलाया है। फिल्म की घोषणा के बाद अब इसकी स्टार कास्ट को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है।

रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नयनतारा का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इस खबर ने जोर पकड़ लिया है।


नयनतारा साउथ सिनेमा

की सबसे बड़ी और सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने साल 2003 में अपने करियर की शुरुआत की थी और अब तक लगभग 80 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनकी

फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड शानदार रहा है, जिसकी वजह से उन्हें 'लेडी सुपरस्टार' कहा जाता है। गौरतलब है कि नयनतारा हाल ही में शाहरुख खान के साथ फिल्म 'जवान' में

नजर आई थीं। यह फिल्म कमर्शियल तौर पर बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब अगर वह सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करती हैं, तो यह जोड़ी भी दर्शकों के लिए काफी खास साबित हो सकती है।

इसके अलावा, इस फिल्म के लिए अनिल कपूर और प्रकाश राज जैसे दिग्गज कलाकारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि, इन सभी नामों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। फिलहाल, फैस इस फिल्म से जुड़ी हर अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर यह कास्टिंग फाइनल होती है, तो यह फिल्म आने वाले समय की सबसे चर्चित और बड़ी फिल्मों में से एक बन सकती है।



अफेयर, मातृत्व और खुद की राह चुनने वाली नीना

नीना गुप्ता को जिंदगी केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रही। उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही साहसिक और प्रेरणादायक रही है। एक समय पर नीना वेस्टइंडीज के फेमस क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थीं। उस वक्त विवियन शादीशुदा थे, जिससे उनके रिश्ते पर कई सवाल उठे।

इस दौरान नीना प्रेग्नेंट हो गईं, लेकिन विवियन अपने देश लौट चुके थे और अपनी पत्नी के साथ थे। कई लोगों ने नीना को गर्भपात करने की सलाह दी और अकेले पेरेंट बनने के खतरे के बारे में चेतावनी दी। लेकिन नीना ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और खुद से पूछा - 'तुम क्या चाहती हो? यह निर्णय तुम्हें खुश करता है या नहीं?'

अपने दिल की आवाज सुनते हुए नीना ने बिना शादी के ही 1989 में बेटी मसाबा गुप्ता को



जन्म दिया। इस फैसले के बाद उन्हें ट्रेडिंग का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाई। नीना ने अकेले ही अपनी बेटी को परवरिश की और उसे एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला के रूप में बड़ा किया। नीना गुप्ता की यह कहानी दर्शाती है कि सही और साहसी निर्णय लेने के लिए समाज की राय या नकारात्मकता को नजरअंदाज करना जरूरी है। उन्होंने साबित किया कि मातृत्व केवल शादी से जुड़ा नहीं है और किसी भी परिस्थिति में बच्चे के लिए प्यार और सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। उनकी यह प्रेरणादायक यात्रा न केवल फैस के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए मिसाल है, जो अपने जीवन में साहसिक और स्वतंत्र निर्णय लेने की सोचता है।

'रामायण' का भव्य टीजर तैयार

'राम' अवतार की पहली झलक 2 अप्रैल को


रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है। निर्देशक नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य परियोजनाओं में गिना जा रहा है। अब इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसने फैस को उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के पहले टीजर 'राम' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) से मंजूरी मिल गई है। यह टीजर 2 मिनट 38 सेकंड का है और इसे 'यू' सर्टिफिकेट दिया गया है। खास बात यह है कि इसे टेलर जितना लंबा माना जा रहा है, जिससे दर्शकों को कहानी और भव्यता की अच्छी झलक देखने को मिलेगी।

मेकर्स ने इस टीजर को हनुमान जयंती के अवसर

पर रिलीज करने का फैसला लिया है, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी खास महत्व रखता है। इससे पहले रिलीज किए गए 'रामायण-2: इंट्रोडक्शन' वीडियो में फिल्म के शानदार विजुअल्स और वीएफएक्स ने लोगों को काफी प्रभावित किया था। फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी दमदार है। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि यश रावण के किरदार में दिखाई देंगे। वहीं साई पल्लवी सीता का रोल निभा रही हैं।

'रामायण' को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आएगा। ऐसे में यह फिल्म न सिर्फ भारत बल्कि दुनियाभर के दर्शकों के लिए एक भव्य सिनेमाई अनुभव साबित हो सकती है।



अलका याज्ञनिक ने सिंगिंग से बनाई दूरी

अलका याज्ञनिक का नाम भारतीय संगीत इंडस्ट्री में एक ऐसे मुकाम पर है, जहां तक पहुंचना हर गायक का सपना होता है। लेकिन आज वही सिंगर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अलका ने अपनी हेल्थ को लेकर खुलकर बात की और बताया कि वह अभी भी सुनने से जुड़ी एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही हैं।

उन्होंने बताया कि सेसरीन्यूल नर्व हिथरिंग लॉस नाम की इस बीमारी ने उनके प्रोफेशनल लाइफ पर सीधा असर डाला है। यही वजह है कि वह फिलहाल कोई नया सिंगिंग प्रोजेक्ट स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि कई म्यूजिक कंपोजर उनके पास आते हैं, लेकिन वह चाहकर भी काम नहीं ले पा रही हैं।

अलका के अनुसार, यह समस्या 2024 में एक वायरल अटैक के बाद शुरू हुई थी। एक फ्लाइड से उतरते समय उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उन्हें कुछ



भी सुनाई नहीं दे रहा है। यह अनुभव उनके लिए बेहद चौंका देने वाला था और इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी बीमारी की पहचान की।

अपने करियर में 25 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाते वाली अलका याज्ञनिक ने हिंदी सिनेमा को अनगिनत हिट गाने दिए हैं। 'ए मेरे हंसफर', 'चांद छुपा बादल में', 'परदेसी परदेसी' और 'अगर तुम साथ हो' जैसे गानों में उनकी आवाज आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। हालांकि, इस मुश्किल दौर के बावजूद उनके फैस और इंडस्ट्री के लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें भारत सरकार द्वारा 'पद्म भूषण'

सम्मान से भी नवाजा गया, जो उनके योगदान का बड़ा प्रमाण है। फिलहाल, अलका याज्ञनिक अपनी सेहत को प्राथमिकता दे रही हैं। फैस को उम्मीद है कि वह जल्द ही पूरी तरह ठीक होकर फिर से अपनी जादुई आवाज से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करेंगी।

'धुरंधर' का धमाकेदार टीवी प्रीमियर

स्टार गोल्ड ने 'धुरंधर' के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की घोषणा के लिए पूरे नेटवर्क पर एक खास कैम्पेन चलाया। फिल्म धुरंधर की सोवल्ड जहा 'धुरंधर: द रिजेंज' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, वहीं अब 'धुरंधर' टीवी पर भी दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए तैयार है।

इस कैम्पेन के तहत जियोस्टार नेटवर्क के करीब 20 बड़े चैनलों जैसे स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड 2, स्टार गोल्ड रोमांस, स्टार गोल्ड थ्रिल्स, स्टार गोल्ड सेलेक्ट, स्टार उत्सव मूवीज, कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपरहिट्स, स्टार प्लस, कलर्स, एमटीवी, डिज्नी, निक, सोनिक और हंगामा पर एक साथ 'ग्लिच' दिखाया गया, जिससे लोगों में उत्सुकता बढ़ी।

कलाकारों ने बताए अपने पसंदीदा समर रिफ्रेशमेंट्स

एण्डटीवी के कलाकारों ने अपने प्रशंसकों को अपने पसंदीदा समर रिफ्रेशमेंट्स के बारे में बताया है। गर्मी का मौसम खुद को ठंडा रखने, हाइड्रेटेड रहने और ऐसे ताजगी भर पेय पदार्थों का आनंद लेने का सही समय है, जो तेज गर्मी में भी ऊर्जा बनाए रखें। एण्डटीवी के कलाकारों ने बताया है कि वे इस मौसम में खुद को कैसे ठंडा और एनर्जेटिक रखते हैं।

शो घरवाली पेडवाली में लतिका का किरदार निभा रही प्रियंवदा कांत ने कहा, 'मेरे लिए गर्मी का मतलब है नैचुरल

हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक रहना। मैं अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करती हूँ, उसके बाद ताजा नारियल पानी लेती हूँ, जो मुझे तुरंत फ्रेश महसूस कराता है।

शूट के दौरान मैं हमेशा नींबू पानी या छाछ जैसे घर के बने पेय साथ रखती हूँ, जो ठंडक देने के साथ-साथ पाचन के लिए भी अच्छे होते हैं। मुझे तबख और खरबूजा जैसे मौसमी फल भी बहुत पसंद हैं, जो हल्के और रसदार होते हैं। शाम को मैं फ्रूट स्मूदी या ठंडा आम पन्ना पीना पसंद करती हूँ, जो मुझे तरोताजा कर देता है।



कृषि जगत

स्वास्थ्य का भरोसेमंद साथी : पीले चने

शरीर को भीतर से गर्म रखने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए पारंपरिक खाद्य पदार्थों का महत्व बढ़ जाता है। इन्हीं में से एक है पीला चना, जिसे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, पीला चना प्राकृतिक गर्माहट प्रदान करता है और शरीर की रोगप्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। लोग इसे भुने हुए चने, चने की दाल, लापसी और सत्तू के रूप में सेवन करते हैं, जो न केवल पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, बल्कि शरीर को लगातार ऊर्जा भी देता है। इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर, आयरन और मिनिरल्स टंड से होने वाली कमजोरी, सुस्ती और भूख की अनियमितता को दूर करते हैं। हाल के दिनों में उपभोक्ता इस बात को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं कि उन्हें शुद्ध और असली पीला चना ही मिले। विशेषज्ञ बताते हैं कि असली चना पहचानना कठिन नहीं है। असली पीले चने का रंग हल्का सुनहरा होता है, दाने समान आकार के और सूर्य में ठोस महसूस होते हैं, इसे पानी में डालने पर कोई रंग नहीं छोड़ता और न ही दानों पर कोई कृत्रिम चमक दिखाई देती है। चने की सतह पर हल्की प्राकृतिक परत और मिट्टी जैसी हल्की खुशबू इसकी गुणवत्ता का संकेत मानी जाती है। पोषण विशेषज्ञ बताते हैं कि नियमित रूप से पीला चना खाने से शरीर गर्म रहता है, पाचन मजबूत होता है और सर्दियों में होने वाली थकावट व कमजोरी कम होती है।

दूर करते हैं। हाल के दिनों में उपभोक्ता इस बात को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं कि उन्हें शुद्ध और असली पीला चना ही मिले। विशेषज्ञ बताते हैं कि असली चना पहचानना कठिन नहीं है। असली पीले चने का रंग हल्का सुनहरा होता है, दाने समान आकार के और सूर्य में ठोस महसूस होते हैं, इसे पानी में डालने पर कोई रंग नहीं छोड़ता और न ही दानों पर कोई कृत्रिम चमक दिखाई देती है। चने की सतह पर हल्की प्राकृतिक परत और मिट्टी जैसी हल्की खुशबू इसकी गुणवत्ता का संकेत मानी जाती है। पोषण विशेषज्ञ बताते हैं कि नियमित रूप से पीला चना खाने से शरीर गर्म रहता है, पाचन मजबूत होता है और सर्दियों में होने वाली थकावट व कमजोरी कम होती है।

दूर करते हैं। हाल के दिनों में उपभोक्ता इस बात को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं कि उन्हें शुद्ध और असली पीला चना ही मिले। विशेषज्ञ बताते हैं कि असली चना पहचानना कठिन नहीं है। असली पीले चने का रंग हल्का सुनहरा होता है, दाने समान आकार के और सूर्य में ठोस महसूस होते हैं, इसे पानी में डालने पर कोई रंग नहीं छोड़ता और न ही दानों पर कोई कृत्रिम चमक दिखाई देती है। चने की सतह पर हल्की प्राकृतिक परत और मिट्टी जैसी हल्की खुशबू इसकी गुणवत्ता का संकेत मानी जाती है। पोषण विशेषज्ञ बताते हैं कि नियमित रूप से पीला चना खाने से शरीर गर्म रहता है, पाचन मजबूत होता है और सर्दियों में होने वाली थकावट व कमजोरी कम होती है।

दूर करते हैं। हाल के दिनों में उपभोक्ता इस बात को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं कि उन्हें शुद्ध और असली पीला चना ही मिले। विशेषज्ञ बताते हैं कि असली चना पहचानना कठिन नहीं है। असली पीले चने का रंग हल्का सुनहरा होता है, दाने समान आकार के और सूर्य में ठोस महसूस होते हैं, इसे पानी में डालने पर कोई रंग नहीं छोड़ता और न ही दानों पर कोई कृत्रिम चमक दिखाई देती है। चने की सतह पर हल्की प्राकृतिक परत और मिट्टी जैसी हल्की खुशबू इसकी गुणवत्ता का संकेत मानी जाती है। पोषण विशेषज्ञ बताते हैं कि नियमित रूप से पीला चना खाने से शरीर गर्म रहता है, पाचन मजबूत होता है और सर्दियों में होने वाली थकावट व कमजोरी कम होती है।

कम लागत और अधिक लाभ : मसाला खेती ने पकड़ी रफ्तार

रबी सीजन में मसाला फसलों की खेती खेती-किसानों में आय बढ़ाने का सबसे फायदा-मंद विकल्प बनकर उभर रही है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, धनिया, मेथी, लहसुन, सौंफ और अजवाइन जैसी फसलों में तेजी से बढ़ती हैं और इनकी बाजार मांग पूरे साल बनी रहती है।

रबी सीजन की कम तापमान वाली जलवायु मसाला फसलों के लिए एकदम अनुकूल मानी जाती है, जिससे उत्पादन भी अच्छा होता है और लागत पर नियंत्रण रहता है। कृषि मंत्रालय और कई राज्यों ने हाल में मसाला खेती को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किसान मसाला खेती की शुरुआत बहुत कम लागत से कर सकते हैं। एक एकड़ में धनिया या मेथी लगाने का खर्च लगभग

औषधीय पौधे : कमाई का मजबूत जरिया

प्राकृतिक चिकित्सा और आयुष उत्पादों की बढ़ती मांग के बीच देशभर में औषधीय पौधों की खेती किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रही है। हर्बल दवाइयों, आयुर्वेदिक तेलों और हर्बल चायों की मांग बढ़ने से इन पौधों की कीमतों में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, इन पौधों में उत्पादन लागत कम आती है और कम पानी वाली जमीन पर भी यह अच्छे से उग जाते हैं, जिससे किसानों को पारंपरिक फसलों से अधिक लाभ मिलता है।

औषधीय खेती की शुरुआत करना भी बेहद सरल है। विशेषज्ञ बताते हैं कि किसान सबसे पहले अपने क्षेत्र की मिट्टी और मौसम को ध्यान में रखते हुए दौड़ती न औषधीय पौधों का चयन करें। इसके बाद नजदीकी प्रमाणित नर्सरी से पौधे या बीज खरीदें और खेत में हल्की जुताई के बाद जैविक खाद मिलाकर रोपण करें। इन पौधों में रासायनिक कीटनाशक की जरूरत बहुत कम पड़ती है, इसलिए देखभाल भी आसान रहती है। कटाई के बाद पौधों को छाया में सुखाकर स्थानीय हर्बल कंपनियों, आयुष



केंद्रों या प्रोसेसिंग यूनिट्स को सीधे बेचा जा सकता है।

सरकार द्वारा प्रशिक्षण, मार्केट लिंक और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर वित्तीय सहायता दिए जाने से किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। कृषि जागरण और अन्य कृषि विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ लेमनग्रास और

अश्वगंधा जैसी फसलों से किसान प्रति एकड़ 1.5 से 3 लाख रुपये तक की आय कमा रहे हैं। कई राज्यों में औषधीय प्रोजेक्टों से ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिला है और खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में यह खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने की क्षमता रखती है।



10 से 15 हजार रुपये आता है, जिसमें बीज, हल्की जुताई और जैविक खाद शामिल है।

मसाला फसलों में रासायनिक दवाइयों की जरूरत बेहद कम पड़ती है, जिससे अतिरिक्त खर्च घट जाता है। सिंचाई भी 2-



स्वदेशी गाय की देखभाल से बढ़ेगा दूध उत्पादन

स्वदेशी गाय पालन किसानों की आमदनी बढ़ाने का मजबूत आधार बन रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, गिर, साहीवाल, राठी, हरिसारा और थारपारकर जैसी स्वदेशी नस्लें कम तापमान में भी मजबूत प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं, लेकिन इस मौसम में उनकी विशेष देखभाल जरूरी है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि गायों को सूखे बिछवन, तिरपाल या बोरी से ढके शेड में रखना चाहिए, सुबह-शाम पानी देना चाहिए, जिससे पाचन क्रिया ठीक रहे, चारे

में हरा चारा, भूसा, खल, गुड़-चोकर और मिमरल मिक्स शामिल करने से दूध उत्पादन स्थिर रहता है। खुला छोड़ना भी उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। किसान स्वदेशी गाय के दूध से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। शुद्ध ए-2 दूध को बाजार कीमत 60 से 100 रुपये प्रति लीटर तक मिल रही है। एक अच्छी नस्ल की गाय औसतन 8 से 12 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, जिससे किसान एक गाय से महीने में 12,000 से 25,000 रुपये तक की आय प्राप्त कर सकते हैं।

बचाव की आवश्यकता

भारत में पहले 100 से अधिक देसी गायों की नस्लें थीं, जिनमें से अब केवल 36 ही पहचानी जा सकी हैं। ज अधिक दूध उत्पादन के लिए हेवी-फैमिली और जर्सी गायों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे हमारी देसी नस्लें विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। हालांकि, प्राचीन काल से ही देसी नस्लें कृषि और परिवहन गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। हालांकि संकर नस्लें देसी गायों की तुलना में अधिक दूध देती हैं, लेकिन वे भारतीय जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसका परिणाम बीमारियों में वृद्धि के रूप में सामने आया है। कुछ देसी गायों में दूध उत्पादन की अपार क्षमता है। उदाहरण के लिए, गुजरात की 'गिर' और पंजाब की 'साहिवाल', यदि इन नस्लों का चयनात्मक प्रजनन कार्यक्रम चलाया जाए, तो इनके गुणों और दूध उत्पादन में सुधार होगा।